



# HAMIRPUR POLICE



थाना जरिया

दिनांक 09.01.2023

## थाना जरिया क्षेत्र अंतर्गत 15,000-15,000 रुपये के पुरस्कार घोषित 02 वांछित अभियुक्त ,पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

अवगत करना हैं कि दिनांक 08/01/2023 को थाना जरिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि दादों मोड़ थाना जरिया में 7-8 व्यक्ति अवैध असलहों के साथ बैठे हैं, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। उपरोक्त सूचना पर थाना जरिया पुलिस मौके पर पहुँची तो अभियुक्तों की घेराबंदी करने का प्रयास किया गया, अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया, पुलिस टीम द्वारा अपने बचाव में फायरिंग की गई जिसमें दो व्यक्ति दीपक राजपूत पुत्र शंकरलाल निवासी बरगवां थाना जरिया एवं राहुल राजपूत पुत्र सुरेंद्र ग्राम अतरौली थाना जरिया पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों अभियुक्त 15,000-15,000 के पुरस्कार घोषित एवं वांछित हैं। मौके पर अन्य 04 अभियुक्तों को भी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

- 1.दीपक राजपूत पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम बरगंवा थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र 24 वर्ष (पुलिस मुठभेड़ में घायल)
- 2.राहुल राजपूत पुत्र सुरेंद्र निवासी ग्राम अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र 25 वर्ष (पुलिस मुठभेड़ में घायल)
- 3.सत्येन्द्र राजपूत पुत्र प्रताप उर्फ प्रजापत निवासी ग्राम अतरौली थाना जरिया जनपद हमीरपुर उम्र 25 वर्ष
- 4.विकाश राजपूत पुत्र रामसनेही निवासी ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर उम्र 21 वर्ष

5.अमित राजपूत पुत्र देशराज निवासी ग्राम सुनेहटा थाना आटा  
जनपद जालौन उम्र 21 वर्ष

6.नीरज राजपूत पुत्र उदयभान निवासी ग्राम धगवा थाना  
जरिया

### बरामदगी का विवरण

अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमंचा, 05 कारतूस, 02 अदद  
चाकू , 01अदद कुल्हाडी व 01अदद फरसा बरामद हुआ।

अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि दिनांक  
06/01/2023 को ग्राम बरगवां थाना जरिया में घर घुसकर हमला  
करने एवं फायर करने की घटना में पुरस्कार घोषित नामजद  
अभियुक्त दीपक एवं राहुल के साथ गिरफ्तार 04 अन्य अभियुक्त  
घटना वाले दिन हमला कारित करने में शामिल थे। दोनो घायल  
अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया हैं, सभी को  
न्यायिक हिरासत हेतु भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्यवाही  
प्रचलित हैं।

